



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 24, 2005/फाल्गुन 5, 1926

No. 76]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2005/PHALGUNA 5, 1926

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 92(अ)/आ.व./ई.व.—केन्द्रीय सरकार ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (i) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और केन्द्रीय सरकार के ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और एसोसिएशनों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती हो, से परामर्श करने के पश्चात् 8.5 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी से सम्बद्ध गन्ने के 74.50 रुपये प्रति क्विंटल की मूल न्यूनतम कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के लिए 0.88 रुपये के प्रीमियम की शर्त के अधधीन हो, के आधार पर एतद्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकर्ताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर 30 सितम्बर, 2005 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2004-2005 के लिए परिलब्ध ईख के लिए संदेय होगी, किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

## अनुसूची

क्रम सं०	कोड नं०	फैक्ट्री का नाम	गन्ने का न्यूनतम मूल्य रुपये प्रति क्विंटल में
1.	2.	3.	4.
<b>आंध्र प्रदेश</b>			
1	24901 नांदयाल	श्री रायलसीमा शुगर एंड एनर्जी लि०, अय्यलुरु मेट्टा, पो०आ० पूर्णापुरम, नांदयाल रेलवे स्टेशन, जिला कुरुनूल— 518503	74.50
2	25602 दुडुवई	दि आंध्रा शुगर्स लि०, जिला वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	101.78
3	26001 बुय्युरु	दि के०सी०पी० शुगर एंड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, पो०आ० बुय्युरु, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश—521165.	92.10
4	26101 लक्ष्मीपुरम	दि के०सी०पी० शुगर एंड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, लक्ष्मीपुरम, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश	88.58
5	34901 कुमारनाथम	श्री वाणी शुगर्स एंड इंडस्ट्रीज लि०, कुमारनाथम, पो०आ० पुंगानुर, आंध्र प्रदेश— 517247.	89.46

## बिहार

1	22501 रीघा	रीघा शुगर कम्पनी लि०, पो०आ० रीघा, जिला सीतामढ़ी, बिहार	80.66
---	---------------	---	-------

## उड़ीसा

1	30803 धेनकनाल	शक्ति शुगरस लि०, पो०आ० हरिपुर, गांव धेनकनाल सदर, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	92.10
---	------------------	---	-------

## हरियाणा

1.	01701 जीन्द	दि जीन्द को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, तहसील एवं जिला जीन्द - 126102. हरियाणा	90.34
2.	33801 कैथल	दि कैथल को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कैथल, जिला कुरुक्षेत्र-132027, हरियाणा	85.06
3.	37701 नारायणगढ़	नारायणगढ़ शुगर मिल्स लि०, नारायणगढ़, जिला जम्बाला	85.94
4.	42701 गोहाना	दि हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा	89.46

## गुजरात(दक्षिणी)

1	10401 सयान	श्री सयान विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० सयान, तालुक ओलपेड, जिला सूत-394130, गुजरात	96.50
2	10601 पुनियारी	श्री उकाई प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, पो०आ० पुनियारी, जिला सूत, गुजरात	92.98
3	10801 मारोली	श्री मारोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, कल्याण नगर, पो०आ० मारोली बाजार, जिला वलसाड, सूत	85.06

## कर्नाटक

1	17203 समीरवाडी	दि गोदावरी शुगर मिल्स लि०, पो०आ० समीरवाडी, तालुका मुधोल, जिला बीजापुर-587316, कर्नाटक	93.86
2	26401 भद्रावती	दि मैसूर पेपर मिल्स लि०, पो०आ० पेपर टाउन भद्रावती, जिला शिमोगा-577302, कर्नाटक	82.42
3	27101 गोकाक	दि घटप्रभा सहकारी साखर कारखाना नियमित, पो०आ० गोकाक, जिला बेलगांव, कर्नाटक	90.34
4	27701 के०आ० नगर	श्रीरामा सहकारी साखर कारखाना लि०, चुनवानकट्टे कृष्णराजानगर, मैसूर रोड, जिला मैसूर, कर्नाटक	79.78
5	27901 हेमावथी	दि हेमावथी सहकारी साखर कारखाना लि०, पो०आ० श्रीनिवासपुरा, चन्नरथापतना तालुक, हसन-573116.	85.06
6	28101 चामुंडेश्वरी	श्री चामुंडेश्वरी शुगरस लि०, पो०आ० भारती नगर, जिला मांड्या-571422, कर्नाटक	77.14
7	28401 उगरखुर्द	दि उगर शुगर वर्क्स लि०, पो०आ० उगरखुर्द, जिला बेलगांव-591316, कर्नाटक	89.46
8	28701 दावणगेरे	दावणगेरे शुगर कम्पनी लि०, कुकावाडा, तालुका दावणगेरे, जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक	75.38
9	30902 बीएस	बन्नारी अम्मान शुगरस लि०, यूनिट-2, अलागांची गांव, तालुका नांजानगुड-57301, जिला मैसूर, कर्नाटक	93.86
10	49801 शमानुर(दुगावथी)	शमानुर शुगर लि०, दुगावथी, तालुक हरदनहल्ली, जिला दावणगेरे, कर्नाटक	76.26

## महाराष्ट्र

1	16401 बीदरी	श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना लि०, बीदरी, पो०आ० मौनीनगर, ता० कागल, जिला कोल्हापुर-416208.	94.74
2	18201 सिलोड	सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि०, मानिकनगर, तालुक सिलोड, जिला औरंगाबाद-431135	86.82
3	46401 सिपोरा बाजार	श्री रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि०, रावसाहेबनगर, पो० सिपोरा बाजार, तालुक भोदकरन, जिला जालना	92.10
4	51101 गंगामाई	गंगामाई शुगर इंडस्ट्रीज लि०, घाटनान्द्रा, तालुक सिलोड, जिला औरंगाबाद	91.22
5	51301 पानगांव	पाननागेश्वर शुगर मिल्स लि०, पानगांव, तालुक रेनापुर, जिला लातूर	90.34
6	52201 योगेश्वरी	योगेश्वरी शुगर इंडस्ट्रीज लि०, लक्ष्मीनगर, लिम्बा, तालुक पाथरी, जिला पारमनी	99.14
7	52701 वाशी	शिवशक्ति सेतकारी साखर कारखाना लि०, वाशी(टंडुलवाडी), तालुक वाशी, जिला ओस्मानाबाद	92.10
8	53001 मौलीनगर	श्री संत शिरोमणी मारुती महाराज सहकारी साखर कारखाना लि०, मौलीनगर, बेलखुंड, तालुक औसा, जिला लातूर	91.22
9	12001 मातेरवाडी	खाडवा सहकारी साखर कारखाना लि०, मातेरवाडी, तालुक घिन्डोरी, जिला नासिक-422209	106.18
10	12801 प्रवारा नगर(राहुरी)	दि राहुरी सहकारी साखर कारखाना लि०, पो०आ० राहुरी फैक्ट्री, जिला अहमदनगर-413706	92.98
11	13801 भवानीनगर	श्री छत्रपति पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि०, भवानीनगर, ता० बारामती, इंदापूर, जिला पुणे 413104	93.86
12	13601 नीरा	श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि०, पो०आ० सोमेश्वरनगर, नीरा, जिला पुणे-412102	96.50
13	14201 अकलुज	शंकरराव मोहित पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि०, शंकरनगर, अकलुज, यशवंतनगर, तालुक मैत्रीरास, जिला शोलापुर-413118	97.38

## पंजाब

1.	00101 गुरदासपुर	गुरदासपुर को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लि० (यूनिट गुरदासपुर), पो०बा० 27, गुरदासपुर, गुरदासपुर-143521	92.98
2.	00301 फजिल्का	फजिल्का को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० फजिल्का, जिला फिरोजपुर-152123.	88.58
3.	00501 भोगपुर	दि भोगपुर को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० भोगपुर, जालंधर-144201.	88.58
4	00601 नवांशहर	दि दोआबा को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० नवांशहर, जालंधर-144514	81.54
5	00801 बुढेवाल	बुढेवाल को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लि०, गांव और पो०आ० बुढेवाल-141112, दोराहा, तहसील समराला, जिला लुधियाना	81.54

6	31901 नकोदर	नकोदर को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, नकोदर, जालंधर	76.26
7	33201 जगरांव	दि जगरांव को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० जगरांव, हाथूर कमालपुर, लुधियाना	74.50
8	36001 बाबा बकाला	राणा शुगरस लि०, गांव बातुर बकाला, तालुक बाबा बकाला -143202, अमृतसर	86.82
9	42301 अमलोह	नाहर शुगर एंड एलायड इंडस्ट्रीज लि०, अमलोह-147201, तहसील नामा, पटियाला	91.22

## तमिलनाडु

1	29301 तिरुमात्तूर	तिरुमात्तूर को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, कोथांडपट्टी गांव वाणीयांबाडी तालुक, नार्थ आरकोट	96.50
2	29401 कल्लाकुरिची	कल्लाकुरिची को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० मूंगीथूरिपाट्टु, ता० कल्लाकुरिची, साउथ आरकोट	85.06
3	30202 तिरुमंडनकुडी	थीरु अरुन शुगरस लि०, यूनिट तिरुमंडनकुडी, पापनसाम, थंजावूर	86.82
4	30401 नेलीकुप्पम	ईआईडी पैरी (इंडिया) लि०, नेलीकुप्पम, साउथ आरकोट	80.66
5	30601 अम्बिका	श्री अम्बिका शुगरस लि०, पेन्नाडम, साउथ आरकोट	89.46
6	30602 कोट्टूर	श्री अम्बिका शुगरस लि०, कोट्टूर टी०के० थिरुविदैरुथूर, थंजावूर	86.82
7	30801 शक्ति	शक्ति शुगरस लि०, शक्तिनगर, पो०आ० इरोड आर०एम०एस०, जिला पेरियार	83.30
8	30901 बन्नारी अम्मान	बन्नारी अम्मान शुगरस लि०, गांव अलाथुकोम्बई, सत्यामंगलम, जिला पेरियार	91.22
9	32601 घरानी	घरानी शुगरस एंड केमिकल्स लि०, घरानीनगर, वासुदेवनालुर, ता० शिवगिरी, थिरुनेलवेली	84.18
10	50501 अरांथांगी	ई०आई०डी पैरी (इंडिया) लि०, पुडुकोट्टाई शुगर फैक्ट्री, अरांथांगी तालुक, पुडुकोट्टाई जिला, कुरुमबुर - 614622	91.22
11	32801 राजश्री	राजश्री शुगरस एंड केमिकल्स लि०, पेरियाकुलम, मदुरै	89.46

## उत्तर प्रदेश

1	02202 सकौती टांडा	दि यू०पी० स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लि०, यूनिट मोहिउद्दीनपुर, मेरठ - 201205	83.30
2	02301 बागपत	दि बागपत को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० बागपत, मेरठ - 250609	76.26
3	02501 अनूपशहर	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, अनूपशहर, पी०एल० जहांगीरबाद, बुलंदशहर-202394	80.66
4	02901 दौराला	दौराला शुगर वर्क्स, पो०आ० दौराला, मेरठ - 250221	91.22
5	03401 मंसूरपुर	मंसूरपुर शुगर मिल्स लि०, पो०आ० मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर- 251203	79.78

6	03501 शामली	दि अपर दोआब शुगर मिल्स लि०, पो०आ० शामली, मुजफ्फरनगर-247776	90.34
7	03701 सिम्मावली	दि सिम्मावली शुगर मिल्स लि०, पो०आ० सिम्मावली, गाजियाबाद-245207	86.82
8	35201 तितावी	सेल लि०, तितावी, मुजफ्फरनगर	91.22
9	47701 टोडरपुर	शाकुम्बरी शुगर एंड एलायड इंडस्ट्रीज लि०, एट टोडापुर(राघर) सहारनपुर-247001	88.58
10	03801 छाता	छाता शुगर कम्पनी लि०, पो०आ० छाता, मथुरा-281401	74.50
11	05801 धामपुर	दि धामपुर शुगर मिल्स लि०, पो०आ० धामपुर, बिजनौर - 246261	84.18
12	06701 निवोली	दि निवोली शुगर फैक्ट्री, पो०आ० निवोली, इटावा - 207402	82.42
13	34501 धनौरा	ओसवाल एग्री मिल्स लि०, धनौरा, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद	82.42
14	48301 जे०बी० गंज	घाघरा शुगर लि०, यूनिट गोमती शुगर मिल्स, अजबपुर, लखीमपुर खीरी - 261505	89.46
15	48501 रूमापुर	किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि०, शुगर यूनिट रूमापुर तहसील शाहबाद, जिला हरदोई	83.30
16	02216 जरवाल रोड	दि यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट जरवाल रोड, पो०आ० जरवाल रोड, बहराइच-271901	79.78
17	02217 पिपराइच	यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, पो०आ० पिपराइच, यूनिट पिपराइच, गोरखपुर-273151	74.50
18	02220 खाड्डा	दि यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट खाड्डा, पो०आ० राजाबाजार, खाड्डा, जिला पडरौना-273415	84.18
19	03702 चिलवरिया	चिनवारी शुगर 14 <sup>th</sup> बहराइच-गोंडा रोड चिलवरिया, बहराइच - 271801	79.78
20	07101 काशी	काशी सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो०आ० औराई, जिला वाराणसी-221301	74.50
21	08201 बैतालपुर	यू०पी० स्टेट शुगर कार्पोरेशन लि०, यूनिट बैतालपुर, पो०आ० बैतालपुर, जिला देवरिया-274406	74.50
22	08401 प्रतापपुर	दि प्रतापपुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०, पो०आ० प्रतापपुर, जिला देवरिया-274703	85.06
23	08901 बलरामपुर	बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, पो०आ० बलरामपुर, गोंडा - 271201	88.58
24	54501 हैदरगढ़	हैदरगढ़ चीनी मिल्स, पोखरा, पो०आ० हैदरगढ़, बाराबंकी	86.82
25	02902 मवाना	मवाना शुगर वर्क्स, पो०आ० मवाना, मेरठ - 250401	91.22
26	05501 बेलराय	दि सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि०, बेलराय, लखीमपुर खीरी	80.66

61567105-2

## उत्तरांचल

1	3101 इकबालपुर	दि महालक्ष्मी शुगर मिल्स कम्पनी लि०, पो०आ० इकबालपुर, जिला हस्तिना- 247668	83.30
2	4001 किछा	किछा शुगर कम्पनी लि०, पो०आ० किछा, जिला नैनीताल- 263148	85.06
3	4401 बाजपुर	दि बाजपुर को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो०आ० बाजपुर, जिला नैनीताल- 262401.	84.18
4	6101 काशीपुर	डी०एस०एम० एग्रो प्रोडक्ट्स लि०, यूनिट डीएसएम शुगर (काशीपुर) पो०आ० काशीपुर, नैनीताल- 244713	82.42

## पश्चिम बंगाल

1	23401 प्लासी	खेतान एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, पो०आ० प्लासी, जिला नदिया-741157	74.50
---	-----------------	--	-------

[सं. 3(5)/2003-एस.पी.]

पी. उमा शंकर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

## ORDER

New Delhi, the 24th February, 2005

G.S.R. 92(E)/Ess. Com./Sugarcane.— In exercise of the powers conferred by clause 3 of Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, Bodies and Associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs.74.50 per quintal linked to a basic recovery of 8.5% sugar subject to a premium of Rs. 0.88 for every 0.1% point increase in the recovery above that level hereby fixes the price specified in column (4) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule or their agents for the sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 2004-2005 ending the 30th September, 2005 subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order

## SCHEDULE

Serial Number	Code Number	Name of the factory	Minimum sugarcane price in Rupees per quintal
(1)	(2)	(3)	(4)

## ANDHRA PRADESH

1	24901 Nandyal	Sree Rayalseema Sugar & Energy Ltd., Ayyaluru Metta, P.O. Poomapuram, Nandyal Rly. Station, District Kurnool - 518503	74.50
2	25602 Taduvai	The Andhra Sugars Ltd., District West Godavari, Andhra Pradesh.	101.78

3	26001 Vuyyuru	The KCP Sugar & Industries Corporation Ltd., P.O. Vuyyuru, District Krishna, Andhra Pradesh-521165.	92.10
4	26101 Lakshmipuram	The KCP Sugar & Industries Corporation Ltd., Lakshmipuram, District Krishna, Andhra Pradesh.	88.58
5	34901 Kummaranatham	Shree Vani Sugars & Industries Ltd., Kummaranatham, P.O. Punganur, Andhra Pradesh - 517247.	89.46

**BIHAR**

1	22501 Riga	Riga Sugar Co. Ltd., P.O. Righa, District Sitamarhi, Bihar.	80.66
---	---------------	---	-------

**ORISSA**

1	30803 Dhenkanal	Sakthi Sugars Ltd., P.O. Haripur, Village The. Dhenkanal Sadar, District Dhenkanal, Orissa/	92.10
---	--------------------	---	-------

**HARYANA**

1.	01701 Jind	The Jind Cooperative Sugar Mills Ltd., Tech. & District Jind - 126102. Haryana.	90.34
2.	33801 Kaithal	The Kaithal Cooperative Sugar Mills Ltd., Kaithal (HR), District Kurukshetra-132027, Haryana.	85.06
3.	37701 Naraingarh	Naraingarh Sugar Mills Ltd., Naraingarh, District Ambala.	85.94
4.	42701 Gohana	The Haryana State Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd., Gohana, District Sonapat, Haryana.	89.46

**GUJARAT(SOUTH)**

1	10401 Sayan	Shree Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Sayan, Tal. Olpad, District Surat-394130, Gujarat.	96.50
2	10601 Paniari	Shree Ukai Pradesh Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Paniari, District Surat, Gujarat.	92.98
3	10801 Maroli	Shri Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Kalyan Nagar, P.O. Maroli Bazar, District Valsad, Gujarat.	85.06

**KARNATAKA**

1	17203 Sameerwadi	The Godavari Sugar Mills Ltd., P.O. Sameerwadi, Tal. Mudhol, District Bijapur-587316, Karnataka.	93.86
2	26401 Bhadravati	The Mysore Paper Mills Ltd., P.O. Paper Town Bhadravati, District Shimoga-577302, Karnataka.	82.42
3	27101 Gokak	The Ghataprabha Sahakari Sakhar Karkhane Niyamit, P.O. Gokak, District Belgaum, Karnataka.	90.34
4	27701 K.R. Nagar	Shreerama Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., Chunchanakatte, Krishnarajanagar, Mysore Road, District Mysore, Karnataka.	79.78
5	27901 Hemavathy	The Hemavathy Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., P.O. Srinivaspura, Channarayapatna Taluk, Hassan-573116.	85.06

6	28101 Chamundeswari	Sri Chamundeswari Sugars Ltd., P.O. Bharathi Nagar, District Mandya-571422, Karnataka.	77.14
7	28401 Ugarkhurd	The Ugar Sugar Works Ltd., P.O. Ugarkhurd, District Belgaum-591316, Karnataka.	89.46
8	28701 Davangere	Davangere Sugar Co. Ltd., Kukavada, Takluka Davangere, District Chtradurga, Karnataka.	75.38
9	30902 BAS	Bannari Amman Sugars Ltd., Unit-II, Alaganchi Village, Taluka Nanjangud-57301, District Mysore, Karnataka.	93.86
10	49801 Shamanur (Duggavathi)	Shamanur Sugar Ltd., Duggavathi, Taluk Hardhanhalli, District Davangere, Karnataka.	76.26

**MAHARASHTRA**

1	16401 Bidri	Shree Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bidri, P.O. Mouninagar, Tal. Kagal, District Kolhapur-416208.	94.74
2	18201 Sillod	Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Maniknagar, Taluka Sillod, District Aurangabad-431135	86.82
3	46401 Sipora Bazar	Shree Rameshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Raosaheb Nagar, Post Sipora Bazar, Taluk Bhokardan, District Jalgaon.	92.10
4	51101 Gangamai	Gangamai Sugar Industries Ltd., Ghatnandra, Taluk Sillod, District Aurangabad.	91.22
5	51301 Pangaon	Pannageshwar Sugar Mills Ltd., Pangaon, Taluk Renapur, District Latur.	90.34
6	52201 Yogeshwari	Yogeshwari Sugaar Industries Ltd., Laxminagar, Limba, Taluk Pathri, District Parbhani	99.14
7	52701 Washi	Shivshakti Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Washi (Tandulwadi), Taluk Washi, District Osmanabad.	92.10
8	53001 Maulinagar	Shri Sant Shiromani Maruti Maharaj Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Maulinagar, Belkund, Taluk Ausa, District Latur.	91.22
9	12001 Materewadi	Kadwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Materewadi, Taluk Dindori, District Nasik-422209	106.18
10	12801 Pravaramagar (Rahuri)	The Rahuri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Rahuri Factory, District Ahmednagar-413706	92.98
11	13801 Bhavaninagar	Shri Chhatrapatti Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhavaninagar, Tal. (Shivnagar), Taluka Baramati, Indapur, District Pune 413104	93.86
12	13601 Nira	Shree Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Someshwarnagar, Nira, District Pune-412102	96.50
13	14201 Akliuj	Sahakar Maharishi Shankarao Mohite Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shankarnagar, Akliuj, Yeshwantnagar, Taluka Maishras, Sholapur - 413118	97.38



**PUNJAB**

1.	00101 Gurdaspur	Gurdaspur Cooperative Sugar Mills Ltd., (Unit Gurdaspur), P.B. 27, Gurdaspur, Gurdaspur-143521	92.98
2.	00301 Fazilka	Fazilka Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Fazika, District Ferozepur-152123.	88.58
3.	00501 Bhogpur	The Bhogpur Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O Bhogpur, Jallandar – 144201.	88.58
4	00601 Nawanshahr	The Doaba Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Nawanshahr, Jullunder-144514	81.54
5	00801 Budhewal	Budhewal Cooperative Sugar Mills Ltd., Village & P.O Budhewal-141112, Doraha, The. Samrala, District Ludhian.	81.54
6	31901 Nakodar	Nakodar Cooperative Sugar Mills Ltd., Nakodar, Jallandar.	76.26
7	33201 Jagraon	The Jagraon Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Jagraon, Hathoor Kamalpur, Ludhiana	74.50
8	36001 Baba Bakala	Rana Sugars Ltd., Village Batur Bakala, Taluka Baba Bakala-143202, Amritsar	86.82
9	42301 Amloh	Nahar Sugar & Allied Industries Ltd., Amloh0147201, The. Nabha, Patiala	91.22

**TAMIL NADU**

1	29301 Tirupattur	Tirupattur Cooperative Sugar Mills Ltd., Kothandapatti, Village Vaniambadi Taluk, North Arcot.	96.50
2	29401 Kallakurichi	Kallakurichi Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O Moongithuripattu, Tal. Kallakurichi, South Arcot.	85.06
3	30202 Tirumandankudi	Thiru Arooran Sugars Ltd., Unit : Tihirumandankudi, Papanasam, Thanjavur	86.82
4	30401 Nellikuppam	EID Parry (India) Ltd., Nellikuppam, South Arcot.	80.66
5	30601 Ambika	Shree Ambika Sugars Ltd., Pennadam, South Arcot.	89.46
6	30602 Kottur	Shree Ambika Sugars Ltd., Kottur T.K. Thiruvaidaimaruthur, Thanjavur.	86.82
7	30801 Sakthi	Sakthi Sugars Ltd., Sakthinagar, P.O. Erode R.M.S., District Periyar.	83.30
8	30901 Bannari Amman	Bannari Amman Sugars Ltd., Village Alathukombai, Sathyamanglam, District Periyar.	91.22
9	32601 Dharani	Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Dharaninagar, Vasudevanalur, Tal. Sivagiri, Thirunelveli	84.18
10	50501 Aranthangi	E.I.D Parry (India) Ltd., Pudukottai Sugar Factory, Aranthangi Taluk, Pudukottai District, Kurumbur – 614622	91.22
11	32801 Rajshree	Rajshree Sugars & Chemicals Ltd., Periyakulam, Madurai.	89.46

61561105-3

## UTTAR PRADESH

1	02202 Sakhoti Tanda	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit: Mohiuddinpur, Meerut – 201205	83.30
2	02301 Bagpat	The Bagpat Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O Bagpat, Meerut – 250609	76.23
3	02501 Anoopshahar	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Anoopshahr, P.L. Jahangirabad, Bulandshahr-202394	80.66
4	02901 Daurala	Daurala Sugar Works, P.O. Daurala, Meerut – 250221	91.22
5	03401 Mansurpur	Mansurpur Sugar Mills Ltd., P.O. Mansurpur, Muzaffarnagar- 251203	79.78
6	03501 Shamli	The Upper Doab Sugar Mills Ltd., P.O. Shamli, Muzaffarnagar-247776	90.34
7	03701 Simbhaoli	The Simbhaoli Sugar Mills Ltd., P.O. Simbhaoli, Ghaziabad-245207	86.82
8	35201 Titawi	Siel Ltd., Titawi, Muzaffarnagar.	91.22
9	47701 Todarpur	Shakumbhari Sugar & Allied Industries Ltd., At Todapur (Raghar) Saharanpur-247001	88.58
10	03801 Chhata	Chhata Sugar Co. Ltd., P.O. Chhata, Mathura – 281401	74.50
11	05801 Dhampur	The Dhampur Sugar Mills Ltd., P.O. Dhampur, Bijnor – 246261	84.18
12	06701 Neoli	The Neoli Sugar Factory, Manpurnagar, P.O. Neoli, Etah – 207402	82.42
13	34501 Dhanaura	Oswal Agro Mills Ltd., Dhanaura, The: Hasanpur, District Moradabad.	82.42
14	48301 J.B. Ganj	Ghaghara Sugar Ltd., unit: Gomti Sugar Mills, Ajabpur, Lakhimpur Kheri – 261505	89.46
15	48501 Rupapur	Kitply Industries Ltd., Sugar Unit : Rupapur, Tehsil Shahbad, Hardoi District.	83.30
16	02216 Jarwal Road	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit : Jarwal Road, P.O. Jarwal Road, Bahraich-271901	79.78
17	02217 Pipraich	U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O. Pipraich, Unit: Pipraich, Gorakhpur-273151	74.50
18	02220 Khadda	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit : Khadda, P.O. Rajabazar, Khadda, District Padrauna-273415.	84.18
19	03702 Chilwaria	Chilwari Sugar 14 <sup>th</sup> Bahraich – Gonda Road Chilwaria, Bahraich – 271801	79.78
20	07101 Kashi	Kashi Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Aurai, District Varanasi-221301.	74.50
21	08201 Baitalpur	U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Baitalpur, P.O. Baitalpur, District Deoria-274406	74.50
22	08401 Pratappur	The Pratappur Sugar & Industries Ltd., P.O. Pratappur, District Deoria-274703	85.06
23	08901 Balrampur	Balrampur Chini Mills Ltd., P.O. balrampur, Gonda – 271201	88.58

24	54501 Haidergarh	Haidergarh Chini Mills, Pokhra, P.O. Haidergarh, Barabanki.	86.82
25	02902 Mawana	Mawana Sugar Works, P.O. Mawana, Meerut – 250401.	91.22
26	05501 Belrayan	The Sarjoo Sahakari Chini Mills Ltd., Belrayan Lkhimpur Kheri.	80.66

**UTTARANCHAL**

1	3101 Iqbalpur	The Mahalakshmi Sugar Mills Company Ltd., P.O. Iqbalpur, District Haridwar – 247668	83.30
2	4001 Kichha	Kichha Sugar Co. Ltd., P.O. Kichha, District Nainital – 263148	85.06
3	4401 Bazpur	The Bazpur Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Bazpur, District Nainital – 262401.	84.18
4	6101 Kashipur	DSM Agro Products. Ltd., Unit DSM Sugar (Kashipur) P.O. Kashipur, Nainital – 244713	82.42

**WEST BENGAL**

1	23401 Plassey	Khaithan Agro Industries Ltd., P.O. Plassey, District Nadia-741157	74.50
---	------------------	---	-------

[No. 3(5)/2003-SP]

P. UMA SHANKAR, Jt. Secy.